

**भारत सरकार**  
**भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण**  
**राज्य इकाई: जम्मू एवं कश्मीर**

169वां स्थापना दिवस कार्यक्रम  
कार्यक्रम प्रतिवेदन

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई: जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कार्यालय में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 169वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिनांक 04 मार्च, 2019 को अति हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य इकाई : जम्मू एवं कश्मीर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

इस अवसर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई: जम्मू एवं कश्मीर से सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इन अधिकारियों में श्री सेवा दास, अपर महानिदेशक(सेवानिवृत्त), श्री मोहन लाल, उप महानिदेशक(सेवानिवृत्त), श्री कुलदीप सिंह जम्वाल, उप महानिदेशक(सेवानिवृत्त), श्री बिशन दास थापा, अपर महानिदेशक(सेवानिवृत्त) एवं श्री जोगिन्दर सिंह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक(सेवानिवृत्त) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, जम्मू एवं कश्मीर को भी सादर आमंत्रित किया गया था।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 169वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ सम्मेलन कक्ष में केक काट कर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, जम्मू एवं कश्मीर का **“भू-जल का विकास एवं प्रबंधन”** विषय पर सम्बोधन रखा गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिनेश व्ही गणवीर, उपमहानिदेशक, राज्य इकाई: जम्मू एवं कश्मीर द्वारा की गई।

इस अवसर पर श्री दिनेश व्ही गणवीर ने पधारे हुए उच्चाधिकारियों एवं अतिथिगण तथा राज्य इकाई : जम्मू एवं कश्मीर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 169वें स्थापना दिवस के उपलक्ष पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने राज्य इकाई : जम्मू एवं कश्मीर में चल रहे कार्यों से आमंत्रित अतिथिगण को अवगत करवाया।


इसके पश्चात श्री अशोक कुमार द्वारा राज्य : जम्मू एवं कश्मीर में केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चल रही गतिविधियों और उपलब्धियों पर एक विस्तृत सम्बोधन प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों और समस्त अधिकारियों एवं

कर्मचारियों ने बढी रुचिपूर्ण तरीके से हिस्सा लिया।

तत्पश्चात, श्री दिनेश व्ही. गणवीर, उपमहानिदेशक, राज्य इकाई: जम्मू एवं कश्मीर ने श्री मोहम्मद यूनुस शाह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा चयनित "युवा वैज्ञानिक पुरस्कार" से सम्मानित किया। इसके बाद, आमंत्रित सभी सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों ने सभा के समक्ष अपने अपने बहुमूल्य विचार रखे और अपने कार्यकाल के दौरान हुई स्मृतियों को सबके साथ साँझा किया। सभी उच्चाधिकारियों ने युवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य कर्मठ एवं सच्ची ईमानदारी से करने का आह्वान किया तथा महान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ध्वज को क्षितिज तक ले जाने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री राजेश जोशी, निदेशक एवं कार्यालयधक्ष द्वारा दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष, आमंत्रित अतिथी तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के प्रति आभार प्रकट किया।

## कार्यक्रम की झलके



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 169वें स्थापना दिवस की तैयारियां।



श्री दिनेश व्ही गणवीर द्वारा आमंत्रित अतिथिगण एवं उच्चाधिकारियों का स्वागत।



आमंत्रित वक्ता श्री अशोक कुमार का श्री दिनेश व्ही गणवीर द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत।



निदेशक एवं कार्यालयधक्ष श्री राजेश जोशी श्री अशोक कुमार को अपने व्यख्यान देने हेतु आमंत्रित करते हुए।



अशोक अंगुराणा का व्याख्यान सुनते हुए उच्चाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारीगण।



श्री दिनेश व्ही. गणवीर मोहम्मद यूनुस शाह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक को "युवा वैज्ञानिक पुरस्कार" से सम्मानित करते हुए।



उच्चाधिकारीगन अपने अपने विचार सभा के समक्ष सांझे करते हुए।